



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49]
No. 49]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 29, 1979/माघ 9, 1900
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 29, 1979/MAGHA 9, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय
(खाद्य विभाग)

अधीनसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1979

का. आ. 56 (अ)—केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि 15 नवम्बर, 1978 को उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले में रामपुर स्थित चीनी का विनिर्माण करने वाली रजा बुलन्द चीनी कम्पनी लिमिटेड (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त चीनी उपक्रम कहा गया है), 15 नवम्बर, 1978 तक चीनी का विनिर्माण प्रारम्भ करने में असफल रही है और उस के पास, 15 नवम्बर, 1978 के पूर्व क्रय किए गये गन्ने के सम्बन्ध में, गन्ना सम्बन्धी दाय, चीनी वर्ष 1977-78 के दौरान उक्त चीनी उपक्रम के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार क्रय किए गए गन्ने की कुल कीमत के वस प्रतिशत से अधिक तक बकाया है;

और केंद्रीय सरकार ने उक्त चीनी उपक्रम के स्वामी को चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश, 1978 (1978 का 5) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन 18 नवम्बर, 1978 की सूचना संख्या चीनी/121/78-79 जारी की थी जिसमें उससे यह कहा गया था कि उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर उन परिस्थितियों को लिखित रूप में बताए, जिनके कारण उक्त चीनी उपक्रम, 15 नवम्बर, 1978 को या उसके पूर्व चीनी का विनिर्माण

प्रारम्भ करने में असफल रहा है तथा उक्त चीनी उपक्रम गन्ना सम्बन्धी दाय के उक्त बकाया को चुकता करने में असफल रहा है और इस बाबत कारण वीरित कर कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबन्ध केंद्रीय सरकार द्वारा क्यों न ग्रहण कर लिया जाए;

और केंद्रीय सरकार का, उक्त चीनी उपक्रम की ओर से खेतान एण्ड पार्टनर्स अधिवक्ता और नोटरी हिमालय हाउस, 23 कस्तूरबा गान्धी मार्ग नई दिल्ली द्वारा भेजी गई रिपोर्ट सं. एस आर/एम-5654, तारीख 28-11-78 पर विचार करने के पश्चात्, उन परिस्थितियों की बाबत जिनके कारण गन्ना सम्बन्धी दाय वस प्रतिशत से अधिक तक बकाया रह गया है और गन्ना सम्बन्धी दाय के उक्त बकाया को चुकता करने में उक्त चीनी उपक्रम की असमर्थता की बाबत समाधान नहीं हुआ है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबन्ध, 30 जनवरी, 1979 को और इससे प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय सरकार में निहित होगा।

[सं. एस यू जी/121/7

सी. एन. राघवन, संयुक्त

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION**(Department of Food)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th January, 1979

S.O. 56(E).—Whereas the Central Government being satisfied that as on the 15th day of November, 1978, the Raza Buland Sugar Company Limited (hereinafter in this Order referred to as the said sugar undertaking) manufacturing sugar at Rampur in the District of Rampur in the State of Uttar Pradesh has failed to commence manufacture of sugar by the 15th day of November, 1978 and has, in relation to the cane purchased before the 15th day of November, 1978, arrears of cane dues to the extent of more than ten per cent of the total price of the cane so purchased for the purposes of the said sugar undertaking during the 1977-78 sugar year;

And whereas, the Central Government on the 18th day of November, 1978 issued Notice No. SUG/121/78-79 under sub-section (1) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking over of Management) Ordinance, 1978 (5 of 1978) to the owner of the said sugar undertaking calling upon him to report in writing within seven days from the date of receipt of the said notice the circumstances under which the

said sugar undertaking has failed to commence the manufacture of sugar on or before the 15th day of November, 1978, and the said sugar undertaking has failed to clear the said arrears of cane dues, and to show cause as to why the management of the said sugar undertaking should not be taken over by the Central Government;

And whereas, the Central Government having considered the report No. SR/M/5654 dated the 28th November, 1978 sent by M/s. Khetan and Partners, Advocates and Notaries, Himalaya House, 23-Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-1 on behalf of the said sugar undertaking is not satisfied with the circumstances for having the arrears of cane dues a excess of ten per cent and with inability of the said sugar undertaking to clear the said arrears of cane dues;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking over of Management) Act, 1978 (No. 49 of 1978), the Central Government hereby declares that the management of the said sugar undertaking shall vest in the Central Government for a period of three years commencing on and from the 30th day of January.

[No. SUG/121/78-79]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.